



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 457 राँची, शुक्रवार

5 आषाढ, 1937 (श०)

26 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

19 जून, 2015

संख्या: 03नि०-99/2011 रा०नि०आ० 1544 - यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई

हो) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, गढ़वा के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekol	ftyk	fuokpu {le-	uke ,oairk	dlj.k
1	2	3	4	5
1	x<øk	x<øk@ [kj kãkh&01	pEik noh] xte&vjakh] i k\$ i 0&vjakh] i z k.M& [kj kãkh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
2		x<øk @ [kj kãkh&01	fplrk noh] xte&dfjokMhg] i k\$ i 0&dfjokMhg] i z kM& [kj kãkh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
3		x<øk @ [kj kãkh&01	fo }lrrh noh] xte&vjakh] i k\$ i 0&vjakh] i z k.M& [kj kãkh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
4		x<øk @ [kj kãkh&01	jhrk noh] xte&vej kj k] i 0&ef>xkøk] %vej kj k½ i z kM& [kj kãkh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
5		x<øk @ [kj kãkh&01	# i k noh] xte&vej kj k] i 0&ef>xkøk] %vej kj k½ i z kM& [kj kãkh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
6		x<øk @ [kj kãkh&01	fo korh noh] xte&vjakh] i k\$ i 0&vjakh] i z k.M& [kj kãkh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
7		x<øk @ drrkj&02	e/kq noh] xte&pkMhg] i k\$ i 0&i kpkMëj] i z kM&drrkj	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
8		x<øk @HkoukFki g&03	bUnno cBk] xte\$ i k\$ &pijh] i 0&pijh] i z kM&HkoukFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
9		x<øk @HkoukFki g&03	mnhr egrk] xte\$ i 0&ef>xkpk] i z kM&HkoukFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
10		x<øk @HkoukFki g&03	mesk dëkj fl g] xte&crks [km] i 0&gfjgj i g] i z kM&HkoukFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA
11		x<øk @HkoukFki g&03	mesk egrk] xte&/kuh eMjk] i k\$ &pijh] i 0&i Mfj; k] i z kM&HkoukFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djuseavl Qy jgA

12	I x<ek @HkoulFki g&03	vke ukjk; .k fl g] xte\$ i 0\$ i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
13	I x<ek @HkoulFki g&03	dlnu dekj Bkdj] xte&jksgfu; k] i k0&>xjk [kM+i 0&cul kuh] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
14	I x<ek @HkoulFki g&03	?ku'; ke i kBd] xte&cul kuh] i k0&>xjk [kM+] i 0&cul kuh] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
15	I x<ek @HkoulFki g&03	uhjt dekj plks} xte&fl akk&ksyh] i 0&pijh] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
16	I x<ek @HkoulFki g&03	czt sk dekj fl g] xte\$ i 0\$ i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
17	I x<ek @HkoulFki g&03	enu ekgu fl g] xte\$ i 0&fl Untj; k] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
18	I x<ek @HkoulFki g&03	'kEhkwjke] xte&cul kuh %>xjk [kM+ i 0&cul kuh HkoulFki g] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
19	I x<ek @HkoulFki g&03	I turk nsh] xte&>xjk [kM+cul kuh] i 0&cul kuh] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
20	I x<ek @HkoulFki g&03	I pthy dekj fl g] xte\$ i 0\$ i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
21	I x<ek @plnok&11	I jsk plnz 'kek} xte\$ i 0&fl Untj; k] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
22	I x<ek @HkoulFki g&03	Kku i zdk'k nps} xte&dku eMjk] i 0&dSyku] i z [kM&HkoulFki g	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
23	I x<ek @ckj Mhgk&05	I jLorh nsh] xte\$ i k0&ckj Mhgk] i z [kM&ckj Mhgk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
24	I x<ek @fo'kpi gk&07	v#.k dekj xtrk] xte&fo'kpi gk] i k0&dkps k] i 0&fo'kpi gk] i z [kM&fo'kpi gk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
25	I x<ek @fo'kpi gk&07	v'kksd dekj esrk] xte&dkps k fo'kpi gk] i 0&fo'kpi gk] i z [kM&fo'kpi gk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
26	I x<ek @fo'kpi gk&07	i kol dekj] xte&fprjh] i k0&fi jkdyk] i 0&ifrgjh] i z [kM&fo'kpi gk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
27	I x<ek @fo'kpi gk&07	jktoakh i z kn xtrk]	fuokpu 0; ; ka dh y[kk

			xte&irxMk dyk] i k&dks k] i @&fo'kpi gk] i z kM&fo'kpi gk	nkf[ky djusea vl Qy jgA
28		I x<ek @fo'kpi gk&07	f'ko cpu i d kn ; kno] xte&l d ; k] i @&fo'kpi gk] i z kM&fo'kpi gk	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
29		I x<ek @fo'kpi gk&07	I dkhj d ekj fl ej] xte&tks hj ky [kqz cVks/k] i k&VMok] i @&l jka] i z kM&fo'kpi gk	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
30		I x<ek@uxj m\vkjh&09	dfork n oh] xte&gygyk dyk] i @&ig d ih] i z kM&uxj m\vkjh	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
31		I x<ek@uxj m\vkjh&09	xhirk n oh] xte&ejxng] i k&uxj m\vkjh] i @&fpvk foJke] i z kM&uxj m\vkjh	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
32		I x<ek@uxj m\vkjh&09	i ko r h n oh] xte&frokjh Vsyk i rfj ; k dyk] i @&gfyork dyk] i z kM&uxj m\vkjh	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
33		I x<ek@uxj m\vkjh&09	i Hk n oh] xte&v/kkjk i g okjk vsyk] i @&i kYg dyk] i z kM&uxj m\vkjh	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
34		I x<ek@uxj m\vkjh&09	j[kk d ekjh] xte&l jgl rky [kqz nf{k.k Hkx] i @&fi ijMhg] i z kM&uxj m\vkjh	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
35		I x<ek @l xek&10	mn ; d ekj fl ej] xte&?k?kj h] i k&fcjcy] i @&?k?kj h] i z kM&l xek	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
36		I x<ek @l xek&10	nhokdj feJk] xte&cfy ; k] i k&S i @&chjcy] i z kM&l xek	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
37		I x<ek @l xek&10	c[kksh mjko] xte&dVgjdyk xndykj] i @&dVgjdyk] i z kM&l xek	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
38		I x<ek @l xek&10	; kx d n z i d kn ; kno] xte&p d i g] i @&?k?kj h] i z kM&l xek	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
39		I x<ek @l xek&10	; kx d n z i d kn ; kno] xte&i r g] i k&dVgjdyk] i @&l k s i Mhgk] i z kM&l xek	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
40		I x<ek @l xek&10	jkeukFk ; kno] xte&?k?kj h] i k&chjcy] i @&?k?kj h] i z kM&l xek	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
41		I x<ek @l xek&10	jke i d kn jke] xte&cMeh Vsyk] i k&dVgjdyk]	fuokpu 0 ; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy

			i 0&l xek] i z kM&l xek	jgA
42	x<0k @l xek&10	'k d j i l kn ; kno] xte&?k?kjh] i 0&chjcy] i 0&?k?kjh] i z kM&l xek	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
43	x<0k @l xek&10	gu0lr d0kj ; kno] xte&i r g j] i 0&dVgjdyk] i 0&l k u Mhgk] i z kM&l xek	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
44	x<0k @l xek&10	ghjkpln ; kno] xte&?k?kjh] i 0&?k?kjh] i z kM&l xek	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
45	x<0k @/kj dh&11	vatuh n0h] xte&/kj dh dkj gVh Vksyk] i 0&/kj dh] i z kM&/kj dh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
46	x<0k @/kj dh&11	plneuh n0h] xte\$ i 0&vEck[kkj ; k] i z kM&/kj dh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
47	x<0k @MMb&12	jkt0nz jke] xte&MMb] i 0\$ i z kM&MMb]	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
48	x<0k @fpfu; k&13	ghjkeu fl 0] xte&rj heqMk ed[;] i 0&crk] i z kM&fpfu; k]	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
49	x<0k @ejky n0&14	jke; kn l ko] xte\$ i 0&ejky] i 0&ejky i 0] i z kM&ejky	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
50	x<0k @ejky m0&15	ekgEn jTtkd va kjh] xte&vks[kj xkMk nysyh efltn Vksyk] i 0&vks[kj xkMk if'peh] i z kM&ejky	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
51	x<0k @x<0k i0&16	l fork n0h] xte&ir l k] i 0&l xgdyyk] i 0&irki ig] i z kM&x<0k	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
52	x<0k @x<0k i0&17	euhrk f=i k Bh] xte\$ i 0&csyggkj] i 0&frynxx] i z kM&x<0k	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
53	x<0k @jed.Mk&20	tkgu xfm+ k] xte&l gh xkjs kdje] i 0&mn; ig] i 0&ps/} i z kM&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	
54	x<0k@jed.Mk&20	fQjkt va kjh] xte&jkgMh] i 0&cfyx<} i z kM&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA	

55	I x<ok@jed.Mk&20	jkt døkj fl øj xte&fcjktig] i k&cfj; k] i ø&fcjktig] i z[M&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
56	I x<ok@jed.Mk&20	jkt ðnz i ð kn xlrk] xte&xkcjnkgk] i k&cfj; k] i ø&cfyx<f i z[M&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
57	I x<ok@jed.Mk&20	jke xg ik.Ms] xte&dVh] i k&jed.Mk] i ø&gjgð i z[M&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
58	I x<ok@jed.Mk&20	I at ; ; kno] xte&mn; i g] [kkI] i ø&mn; i g] i z[M&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
59	I x<ok@jed.Mk&20	Kkujatu ik.Ms] xte&i Vl j] i k&mn; i g] i ø&psVð i z[M&jed.Mk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
60	I x<ok@Hk.Mfj; k&21	pUnðkUrh feat] xte\$ i k\$ i ø&Hk.Mfj; k	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
61	I x<ok@Hk.Mfj; k&21	I fcuk ydMk] xte&djoyk Hk.Mfj; k] i k\$ i ø&Hk.Mfj; k	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jkt; fuokpu vk; Ør ds vkns k I §

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkt; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkðh A

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 457--50 ।